### **NOTICE - CUM - ADDENDUM NO. 31**

Introduction of Tri-Party REPO in place of CBLO

Place: Mumbai

Notice is hereby given that as per recent RBI directions and subsequent notification issued by Clearing Corporation of India Limited (CCIL), it is proposed to replace the CBLO market with Tri-party repo with effect from 5th November, 2018.

In light of the same, investors of the schemes of Canara Robeco Mutual Fund (with provisions to invest in CBLO) may please note that since Tri-party repo shall replace CBLO, all references in Scheme Information Documents (SID)/Key Information Memorandum (KIM) for CBLO shall be replaced with Tri-party repo.

This addendum shall form an integral part of the SID/KIM of the schemes of Canara Robeco Mutual Fund as amended from time to time. All the other terms and conditions of the aforesaid documents read with addendum will remain unchanged.

Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com in respect of their amounts remaining unclaimed or unpaid and follow the prescribed procedure therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

Date: 13-11-2018

**Authorised Signatory** 

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### I HDFC MUTUAL FUND BHAROSA APNO KA

MUTUAL

**HDFC Asset Management Company Limited** A Joint Venture with Standard Life Investments CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE FOR PREPONMENT OF NEW FUND OFFER (NFO) PERIOD

ADDENDUM to the Scheme Information Document of HDFC FMP 1246D November 2018 (1), a Plan under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 43 NOTICE is hereby given that the closing date of NFO period of HDFC FMP 1246D November 2018 (1).

a Plan under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 43 (close-ended income scheme), announced vide Notice dated November 12, 2018, has been preponed from November 20, 2018 to November 19. 2018. Accordingly, the NFO will close for subscription on November 19, 2018.

All other terms of the issue of the Plan shall remain unchanged.

This addendum shall form an integral part of the Scheme Information Document / Key Information Memorandum of the Plan as amended from time to time.

For HDFC Asset Management Company Limited Place: Mumbai

Chief Compliance Officer

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

## **VARDHMAN HOLDINGS LIMITED** Regd. Office: Chandigarh Road, Ludhiana-141010

Corporate Identity Number (CIN): L17111PB1962PLC002463, PAN: AABCV8088P Website:www.vardhman.com Email: secretarial.lud@vardhman.com Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2018

	No.	W				(Rs. in Cror
ir.	Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Half year	Half year

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30th Sept, 2018	Quarter Ended 30th June, 2018	Quarter Ended 30th Sept, 2017	Half year Ended 30th Sept, 2018	Half year Ended 30th Sept, 2017
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations (net)	25.13	2.84	33.12	27.98	41.37
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	24.39	2.23	32.63	26.62	39.95
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	24.39	2.23	32.63	26.62	39.95
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	23.04	1.44	30.69	24.48	37.35
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	18.29	(10.94)	41.44	7.35	59.67
6	Paid up Equity Share Capital	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) ( in Rs.) (not annualized):					
	(a) Basic	72.19	4.51	96.17	76.70	117.03
	(b) Diluted	72.19	4.51	96.17	76.70	117.03

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial Results filed with the Stock Exhanges under Regulation 33 oh SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial Results for Quarterly and Half year ended September 30,2018 are available on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on website of the company www.vardhman.com.

'The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind-AS) from April 1, 2018 (transition date being April 1, 2017) and accordingly, these financials results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended and prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Accordingly the impact of transition has been recorded in the opening reserves as at 1st April 2017 and the corresponding figures, presented in these results have been restated/reclassified.

For Vardhman Holdings Limited

Place: Ludhiana Date : 13.11.2018

(S.P. Oswal) **Chairman & Managing Director** 

Paul Merchants Ltd. (An ISO 9001:2015 Certified Co.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)

CORP. OFF.: SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh 160022 Ph.0172-5041786, Fax: 0172-5041709 Website: www.paulmerchants.net REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-48702000

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30.09 2018

See	Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations,	2015]			(Rs in Lakhs)
S. No.	Particulars	Three Months Ended 30.09.2018	Corresponding 3 Months Ended 30.09.2017 in the previous Year	Year to Date Figures 30.9.2018	Previous Year Ending 31.03.2018
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	114,393	99,679	299,407	453,916
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	487	354	1,046	2,065
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	487	354	1,046	2,065
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	428	481	935	21,309
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	427	490	937	21,304
6	Equity Share Capital	102.80	102.80	102.80	102.80
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	36,378
8	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs 10 /- each) for continuing and discontinued operations 1. Basic	41.61	46.79	90.96	2,072.85

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) regulations, 2015. The full format of the Financial results for the quarter and half year ended September 30, 2018 are available on the website of BSE Limited http://www.bseindia.com and are also available on the website of the company http://www.paulmerchants.net.

41.61

46.79

The Company has adopted Ind-As w.e.f. 01.04.2017. This Statement of Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind As) prescribed under the Companies Act, 2013 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind-As) alongwith SEBI circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 05.07.2016. The results for the quarter and half year ended September 30, 2018 presented here are Ind-AS Compliant and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company and the Statutory Auditors have carried out limited review of the unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2018.

The above unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2018 have been reviewed by the Audit Committee in its meetingheld on November 9, 2018 and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on November 13, 2018. By order of the Board

Place: Chandigarh Dated: 13.11.2018

2. Diluted

Sat Paul Bansal DIN-00077499 Chairman & Managing Director

90.96

**NATION** 

WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018

**FINANCIAL EXPRESS** 

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Apollo Tyres

# **Quick Heal**

Security Simplified

# **QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED**

Regd. Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Opposite Neco Garden Society, Viman Nagar, Pune - 411014 Phone: +91 20 66813232 CIN: L72200MH1995PLC091408

### ABRIDGED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS

(INR in Millions)

		S	Standalone							
	Particulars	3	Quarter ende	i	Six mon	Year ended				
Sr. No.		September 30, 2018 (Unaudited) (Refer note 2)	June 30, 2018 (Unaudited)	September 30, 2017 (Unaudited) (Refer note 2)	September 30, 2018 (Unaudited)	September 30, 2017 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)			
1	Total income from operations (net)	1,088.56	527.88	1,045.32	1,616.44	1,342.54	3,162.22			
2	Net profit/(loss) for the period before tax (before exceptional items)	629.01	97.34	592.23	726.35	424.86	1,267.24			
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	579.01	97.34	592.23	676.35	424.86	1,192.15			
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	377.04	64.41	392.72	441.45	281.87	788.78			
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	348.88	59.72	395.27	408.60	282.00	759.00			
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)		50	•		•	6,667.44			
7	Equity share capital (Face value of ₹ 10 each)	704.89	704.70	701.89	704.89	701.89	703.88			
8	Earnings per share (before and after extraordinary items) (of ₹10 each) - not annualised									
	Basic:	5.35	0.91	5.60	6.26	4.02	11.23			
	Diluted:	5.34	0.91	5.58	6.25	4.00	11.20			

The above is an extract of the detailed format of Half year and Quarter Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing obligations and Disclosure Requirements ('LODR') Regulations, 2015. The full format of the audited standalone financial results of the Company are available on the Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website - www.quickheal.co.in. The above financials results for the guarter and six month ended September 30, 2018 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company

and reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meetings held on November 12, 2018.

For and on behalf of the Board of Directors

Kailash Katkar Managing Director & Chief Executive Officer

Date: November 12, 2018

MIDHANI

Place: Pune

Sd/-

# MISHRA DHATU NIGAM LIMITED

(CIN: L14292TG1973GOI001660) Registered & Corporate Office: PO Kanchanbagh, Hyderabad - 500058

Phone: 040-24184000, Fax:040-24340214, 24340280, 24340371 Website: www.midhani-india.in

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September 2018

> (₹ in Millions except per share data) Half waar anded Vaar anded

SI.	D-d-l	Q	uarter end	ed	Half yea	Year ended	
No.	Particulars	30.09.2018	30.06.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017	31.03.2018
140.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total revenue from operations	1,151.65	1,060.18	1,158.83	2,211.83	2,080.63	6,660.78
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional items and/or extra ordinary items) #	321.08	211.94	295.51	533.02	469.50	1,918.69
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items and/or extra ordinary items) #	321.08	211.94	295.51	533.02	469.50	1,982.51
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items and/or extra ordinary items) #	205.40	128.19	191.11	333.59	273.01	1,312.62
5	Other comprehensive income / (loss) (net of tax)	24.53	(9.63)	×	14.90	17.88	(9.63)
6	Total comprehensive income for the period (4+5) [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income for the period (after tax)]	229.93	118.56	191.11	348.49	290.89	1,302.99
7	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,873.40	1,873.40	1,873.40	1,873.40	1,873.40	1,873.40
8	Other equity excluding revaluation reserves						6,016.95
9	Earnings per share (Basic & Diluted) (₹) (not annualised)	1.10	0.68	1.02	1.78	1.46	7.01

## Notes:

Place: New Delhi

- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Half Year ended Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Half Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.midhani-india.in)
- # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS.
- 3 Effective April 1, 2018, the company has adopted Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" using the cumulative effect method. The standard is applied retrospectively only to contracts that are not completed as at the date of initial application and hence the comparative information is not restated. The adoption of the standard did not have any material impact on the financial statements of the company.
- The above statement of financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 13th November 2018.

for and on behalf of Board of Directors Sd/-

Dr. D.K.Likhi

Date: 13th November 2018 Chairman & Managing Director

# AUTOLINE AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: S. Nos. 313 / 314, 320 to 323, Nanekarwadi, Chakan, Tal. Khed, Dist. Pune-410 501 | Tel: +91 - 2135 - 664 865 / 6 Fax: +91 - 2135 - 664 864 / 53 | Email: investorservices@autolineind.com | Website: www.autolineind.com | CIN: L34300PN1996PLC104510

### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2018

(₹ in Lakhs except EPS)

			STANDALON	E	CONSOLIDATED			
Sr. No.	PARTICULARS	Quarte	Quarter Ended		Quarter Ended		Half Year Ended	
110.		30 Sept. 2018	30 Sept. 2017	30 Sept. 2018	30 Sept. 2018	30 Sept. 2017	30 Sept. 2018	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1.	Income From Operations	12,209	8,916	23,138	12,210	8,918	23,139	
2.	Other Income	11	22	30	13	17	33	
3.	Total Income	12,220	8,938	23,168	12,223	8,935	23,172	
4.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	(1,091)	(1,842)	(2,404)	(1,118)	(1,879)	(2,460)	
5.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(1,091)	(1,842)	(2,404)	(1,118)	(1,879)	(2,460)	
6.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(1,091)	(1,842)	(2,404)	(1,118)	(1,879)	(2,460)	
7.	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period (after tax) including other Comprehensive Income	(1,078)	(1,837)	(2,366)	(1,104)	(1,874)	(2,421)	
8.	Paid up Equity share capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,100	1,603	2,100	2,100	1,603	2,100	
9.	Reserves excluding Revaluation Reserves	-		230	8	16	1,917	
10.	Earnings per share (not annualised)							
02100	a) Basic (in ₹)	(5.20)	(11.45)	(11.45)	(5.32)	(11.69)	(11.71)	
	b) Diluted (in ₹)	(5.20)	(11.45)	(11.45)	(5.32)	(11.68)	(11.71)	

Place : Pune

Date: November 13, 2018

2,072.85

The above is an extract of the detailed format of Quarterly & half yearly Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of above Results are available on the Company's website: www.autolineind.com and BSE website: www.bseindia.com and NSE website: www.nseindia.com.

By Order of the Board FOR AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED

(Shivaji T. Akhade) (Umesh Chavan) Managing Director CEO & Executive Director DIN: 00006755

Q2 profit up 4% at ₹146 cr PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 13

**APOLLO TYRES ON TUESDAY** reported 4.19% increase in consolidated net profit at ₹146 crore for the second quarter ended September 30.

The company had posted a net profit of ₹140.17 crore in the same quarter last fiscal, Apollo Tyres said in a regulatory filing. Total income during the reported quarter stood at ₹4,269.68 crore. It was at ₹3,496.3 crore in the year-ago period, it added. "In a quarter, when our two

plants were impacted by floods, we had to deal with transporters' strike in India, and the volatile raw material prices, our teams across geographies have performed remarkably well," Apollo Tyres Chairman Onkar S Kanwar said.

He further said: "We are looking forward to a similar growth momentum in the next few quarters as well."

The company said its sales grew 23% to close at ₹4,192 crore during the quarter from ₹3,418 crore in the same period last fiscal led by Indian operations. In the first half of 2018-19 (April-September), sales grew 22 per cent to reach ₹8,442 crore as against Rs 6,931 crore in the year-ago period. Net profit for the period was

up 74% at ₹398 crore as compared to ₹228 crore in the same period last year, the company added.

Britannia to have overseas operation in two markets in next two years

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 13

FMCG MAJOR BRITANNIA Industries has shortlisted four countries — Nigeria, Egypt Myanmar and Bangladesh - for the expansion of its overseas operations, a top company official said. The company hopes to begin operations in one of them in the next financial year and in another in the following year.

The Kolkata-headquartered company has plans to go for either joint manufacturing with a local firm or acquisitions, where ever it is possible, in the new markets.

Besides, Britannia Indus-

tries would enhance its products portfolio by launching croissants by the end of this year and expand its offering in the value-added segment in the dairy business, where it aims to be a niche player in the drinkable. "We are looking for two more countries to enter... Our commitment is to enter into one new country every new year," Britannia Industries Managing Director Varun Berry told PTI.

He further added, "The countries which are in our shortlist are Nigeria, Egypt, Myanmar and Bangladesh."

> On being asked about the time frame, Berry said, "At this point of time, we are very close to entering and one of them would be next financial year and another would be in FY2020-21."

As part of overseas expansion plans, Britannia Industries would locally manufacture its range of products to avoid high import barriers either through acquisition or through joint manufacturing. "We would look at some kind of manufacturing

locally as these countries have very high import duties, whether it is Nigeria, Egypt and Bangladesh, we would have to make sure that we do some

local manufac-

turing," he

added.

DIN: 06908966

# मार्च 2019 से कुछ ट्रेनों में नहीं लगेगा 'फ्लेक्सी फेयर

पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंती एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेनों में प्रायोगिक आधार पर 'स्पेक्सी फेन्स' हटाने का फेसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी वी। 'फ्लेक्सी फेयर' के तहत ट्रेनों में जैसे – जैसे सीटें भरती जाती हैं, उनके किराए में बढ़ोतरी होती जाती है।

अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय आधकारिया न बताया कि रेल मंत्रालय ने 15 मार्च, 2019 से प्रायोगिक आधार पर इन ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर योजना को हटाने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व हटान का फेसला किया है। दाइला पूर रेल के प्रवक्ता संजय घोष ने बताया कि जिन ट्रेनों में महीने में औसतन 50 फीसद से कम सीटें भरती हैं, उनमें छह महीनों के लिए फ्लेक्सी फेन्सर हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन टेनों में महीने में औसतन

देश के 75 सबसे व्यस्त

रेलवे स्टेशनों पर लहराएगा

सौ फट ऊंचा तिरंगा

भारतीय रेल ने देश के 75 सबसे व्यस्त स्टेशनों के परिसर में इस साल के अंत तक 100 फुट . ऊंचा राष्टध्वज लगाने का फैसला

किया है। रेलवे बोर्ड ने 22 अक्तूबर को इस सिलसिले में आदेश जारी किया है, जिसे सभी क्षेत्रीय रेलवे को भेज दिया गया है। आदेश के मुताबिक संबद्ध अधिकारियों से अगले महीने के अंत तक राष्ट्रध्यज लगाने का काम पूरा करने को कहा गया है। यह आदेश

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक रताय बांड के कायकारा निपराक (स्टेशन विकास) विवेक सक्सेना ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड ने पहले के ए 1 श्रेणी के सभी रेलवे स्टेशनों पर कम से में सात स्टेशनों पर राष्ट्रध्वज लगाए जाएंगे।

पश्चिम रेल के मुख्य प्रवक्ता रवींद्र भाकर ने बताया कि रेलवे बोर्ड के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेल द्वारा गठित जोनल रेलवे यूजर कंसलटेटिव कमेटी के सदस्य रतन पोद्वार ने कहा कि रेलवे की

प्राथमिकता यात्री सुविधाओं को

बढ़ाने की होनी चाहिए।

मुंबई, १३ नवंबर (भाषा)।

किया है।

50 से 75 फीसद के बीच सीटें भरती हैं, उनमें से कुछ ट्रेनों में तीन महीने की अविधि (जब यात्रियों की संख्या कम रहती है) के लिए फ्लेक्सी फेयर हटा दिया जाएगा। घोष ने कहा कि सभी श्रेणियों में मौजूदा 1. 5 गुना सीमा घटा कर 1. 4 गुना कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि

१२२७७ हावडा परी शताब्दी एक्सप्रेस में 15 मार्च, 2019 से यात्रा के लिए फ्लेक्सी फेरार से हटा दिया गया है।

एसी, 3 एसी और एसी चेयर कार में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर के साथ अंतिम किराए

में 20 फीसद की श्रेणीबद्ध छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 12277 हावडा परी शताब्दी एक्सप्रेस में 15 मार्च, 2019 से यात्रा के लिए फ्लेक्सी फेयर प्रायोगिक आधार पर छह महीने के लिए पूरी तरह से हटा दिया गया है। फरवरी, मार्च और अगस्त के महीनों में 12020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, 12278 पुरी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस और 12453 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में फ्लेक्सी फेयर हटा लिया जाएगा। पूर्वृ रेलवे के प्रवक्ता एस महापात्रा ने बताया कि 15 मार्च, 2019 से 31 महापात्रा न बताया कि 15 मान, 2019 स 37 मार्च, 2019 त त्रा मार्च, 2019 तक (पखवाद) पर के तिश् प्रायोगिक आधार पर 12041 हावड़ा न्यू जलपार्दगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस और 12042 न्यू जलपार्दगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में फ्लेक्सी फेयर हटाया गया है।

भाजपा के साथ चुनावी समझौता नहीं: एमएनएफ

ऐजल, 13 नवंबर (भाषा)**।** 

भाजपा के साथ कथित नजदीकी के लिए अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर रहने वाले मिजो नेशनल फ्रुटं (एमएनएफ) ने मंगलवार को कहा कि उसका भगवा पार्टी के साथ कोई चुनावी गठजोड़ नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि दोनों दलों की विचारधारा पूर्णतः अलग है।

एमएनएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमएनएफ के विष्ठ उपाध्यक्ष त्वानलुइया ने मिजोरम-प्यामां सीमा पर खाजाल में कहा कि चुनावों के बाद मी त्रिशंकु विधानसभा की रिव्यति में गठवंधन की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएनएफ ईसाइयत के संरक्षण के लिए हैं और वह कभी हिंदुन्व से मेल नहीं करेगा। एमएनएफ पर भगवा पार्टी से नजदीकी का आरोप लगता रहा है, क्योंकि वह भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तर-पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन का घटक है।

### बारात घरों, होटलों से होने वाले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए समिति

नई दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा)।

बैंक्वेट हॉलों, फार्महाउसों और होटलों में कार्यक्रमों के दौरान होने वाले प्रदूषण और ट्रैफिक जाम पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार गतिविधियों को रोकने के लिए एक समिति बनाई है। पंचाट ने समिति से इस संबंध में एक महीने में कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा।

एन निहान में काययाजना तथार करने का मा कहा। एनजीटी के प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि विवाहस्थल अनुमति लिए बिना शादी तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

हरित पंचाट ने एक संयुक्त समिति का गठन किया जिसमें नगर निगमों, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, दिल्ली

जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पंचाट ने कहा कि इस समिति को हर महीने कम से कम दो बार बैठक करनी होगी और इसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के शहरी विकास सचिव करेंगे। हरित पंचाट ने कहा कि समिति को ट्रैफिक जाम के कारण होने वाले वायु प्रदूषण और डीजे सेट के इस्तेमाल से होने वाले ध्वान पदाषण से डाज सट के इस्तमाल से होने वाल व्यान अर्द्भूषण से निपटने के लिए योजना बनानी होगी। पंचाट ने समिति के कामकाज पर नजर रखने के लिए बिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसपी गर्ग की नियुक्ति की। अधिकरण 'बेस्टएंड ग्रीन फार्म्स सोसायटी' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि महिपालपुर और रजोकरी में संचालित बैंक्वेट हॉल और बारात घर के कारण ट्रैफिक जाम और प्रदूषण होता है।

### BCL ENTERPRISES LIMITED

SI. No.	Particulars	Quarter ended (30-09-2018) (Un-audited)	Year Ended (31-03-2018) (Audited)	Quarter ende (30-09-2017) (Un-audited
1	Total income from operations	7.54	618,36	147,83
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.52	29.34	10.42
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.52	29,34	10.42
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.39	23.80	7.46
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/(loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax) (Refer Note No. 2)	0.39	23.80	7.46
6	Equity share capital ( Face Value of Rs. 10/- each)	583.00	583.00	583.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)		18.92	<u> </u>
8	Earnings Per Share Face Value of Rs. 10 each)(not annualised)			
-	Basic (Rs.)	0.01	0.40	0.13
	Diluted (Rs.)	0.01	0.40	0.13

क्रम	विवरण	,	प्रमाप्त तिमाई	'	समाज	छमाही	समाप्त पूर्व वर
ŧi,		30.9.2018 अनंकेक्षित	30.6.2018 अनंकेक्षित	30.9.2017 अनंकेक्षित	30.9.2018 अनंकेक्षित	30.9.2017 अनंकेक्षित	31.3.2018 अंकेश्वित
1.	परिचालनों से कुल आय	3331.82	2638.56	2568.19	5970.38	4984.96	11394.20
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मर्दो से पूर्व#)	314.34	181.98	209.11	496.32	374.52	910.48
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	314.34	181.98	209.11	496.32	374.52	910.48
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं अथव असाधारण मदीं के बाद्ध)	235.85	182.66	152.73	418.51	279.38	603.09
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाम/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	230.45	174.85	152.82	405.30	279.56	550.11
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति पूर्णतः प्रदत्त)	535.68	535.68	535.68	535.68	535.68	535.68
- 1	आय प्रति शेषर (रु. १०/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचलनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)	4.60	2.41	205	7.91	5.22	11.20

------उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी हारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा उसके बाद 13.11.2018.

उपरोवत अर्थकीस्त्र विश्वीय परिणानों को ऑडिट कोटीट हाता परिणान गया पिरकारिय को गई तथा उसके यह 13.11.2018 को क्याबीत उनकी संदिश्य देवाने में निर्देश कर किया उसके यह 13.11.2018 को आर्थीतित उनकी संदिश्य देवाने में निर्देश के स्थान के आर्थीतित किये गए का वार्थिक संदेश के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के अर्थिक की स्थान के स्यान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्था

हस्ता./-दीपक अरनेजा (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) DIN: 00006112

Regd. Office:-510, 5th Floor, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

		Quarter ended	Year Ended	(Rs. In La				
SI. No.	Particulars	(30-09-2018) (Un-audited)	(31-03-2018) (Audited)	(30-09-201 (Un-audite				
1	Total income from operations	7.54	618.36	147.				
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or	-						
	Extraordinary items)	0.52	29.34	10.				
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or							
	Extraordinary items)	0.52	29.34	10.				
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or							
	Extraordinary Items)	0.39	23.80	7.				
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising		7	_				
	Profit/(loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive							
	Income (after Tax) (Refer Note No. 2)	0.39	23.80	7.				
6	Equity share capital ( Face Value of Rs. 10/- each)	583.00	583.00	583.				
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the	8						
	Audited Balance Sheet of previous year)		18.92					
8	Earnings Per Share Face Value of Rs. 10 each)(not annualised)							
	Basic (Rs.)	0.01	0.40	0.				
	Diluted (Rs.)	0.01	0.40	0.				
	For BCL Enterprises Lim  Mahendra Kumar Shi  Place: New Dehi  Date: 12,11,2018  Div. 0005:							

I ne above is an extract or the detailed format of Qualitary Un-buside Findings researched in the Qualitary of Months Ended 300 Repetimely. 2019, file (suit his Book Exchanges under Regulations 30 file SEBEI (suiting Obligant Dischosure Requirements) Regulations, 2015, The detailed Quartery Fannical Results are available on the Comvetoria save also as tooks exchange's webside rewwisefundations. And a suiting of the Companies Act. 2015 read with Companies (Indian Accs Standards) Relax 515 is not Applicable to Bio. Enterpress United for the Financial Year 2016;19.

क्रम	विवरण		समाप्त तिमाह	1	समाज	छमाही	समाप्त पूर्व वा
ŧi,		30.9.2018 अनंकेक्षित	30.6.2018 अनंकेक्षित	30.9.2017 अनंकेक्षित	30.9.2018 अनंकेक्षित	30.9.2017 अनंकेक्षित	31.3.2018 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	3331.82	2638.56	2568.19	5970.38	4984.96	11394.20
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	314.34	181.98	209.11	496.32	374.52	910.48
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	314.34	181.98	209.11	496.32	374.52	910.48
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं अथव असाधारण मदों के बाद#)	235.85	182.66	152.73	418.51	279.38	603.09
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	230.45	174.85	152.82	405.30	279.56	550.11
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मृल्य रु. 10V- प्रति पूर्णतः प्रदत्त)	535.68	535.68	535.68	535.68	535.68	535.68
7.	आय प्रति शेयर (रु. १६/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)						
	1. मूल	4.40	3.41	2.85	7,81	5.22	11.26
	2. तरल	4.40	3.41	2.85	7.81	5.22	11.26

### fzaní).

<b>あ</b> . オ.	<b>विवरण</b>	30.09.2018 को समाप्त तिमाही	पूर्व वर्ष में 30.09.2017 को समाप्त अनुरूप तिमाही	वर्ष की विधि 30.09.2018 को आंकड़ें	31.03.2018 को समाप्त पूर्व दर्ष	
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	तेखापरीक्षित	
1.	प्रवालनों से कुल आय (शुद्ध)	114,393	99,679	299,407	453,916	
2.	अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विशेष या असाधारण मदों से पूर्व)	487	354	1,046	2,065	
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष या असाधारण मदों के बाद)	487	354	1,046	2,065	
4.	कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष या असाधारण मदों के बाद)	428	481	935	21,309	
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर के बाद) के लाभ/(हानि) तबा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके]	427	490	937	21,304	
6.	इविवटी शेयर पूंजी	102.80	102.80	102.80	102,80	
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनः मृत्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	NA	NA	NA	36,378	
8.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (10/-रुपए प्रति) जारी तथा बंद प्रचलनों के लिए					
	1. मूल	41.61	46.79	90.96	2,072.85	
	2. বপুঞ্ব	41.61	46.79	90.96	2,072.85	

30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही तवा छमाही के लिए उपरोक्त अलेखायरीक्षित वितीय परिणाम की आहिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और 1 नवंबर, 2018 को आयोजित इसके निदेशकों के बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमीदित किए गए हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता /- सत पॉल बंसल, डीआइएन-00077499 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

प्रायोगिक आधार पर छह महीने के लिए पूरी तरह

### DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD.

1, Saket, Meerut - 250 003, Ph.: 0121-2648151, 2648152 Email: dhanvantrihospital@gmail.com Website: www.dirl.org.in

XTRACT OF STATEMENT OF REVIWED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER-2018

			Rs. in Lacs	Except per s	hare figure	
SL NO	PARTICULARS	3-MONTHS ENDED ON 30.09.2018	CORRESPONDING 3-MONTHS IN THE PREVIOUS YEAR ENDED ON 30.09.2017	3-MONTHS ENDED ON 30.06.2018	Year Ended 30.09.2018	Year Ended 30.09.2017
1	Total Income	438	301	364	802	607
2	Net Profit /(Loss) for the period before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	22	17	41	63	38
3	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	22	17	41	63	38
4	Net Profit /(Loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	7	10	41	49	31
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	7	10	41	49	31
6	Equity Share Capital	410	410	410	410	410
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve ) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year	652	579	652	652	579
8	Earning per share ( of Rs. 10/- each) ( for continuing and discontinued operations)  1. Basic: 2. Diluted	0.18 0.18	0.24 0.24	1.00 1.00	1.19 1.19	0.75 0.75

### Notes:-

NOTes: 
1. The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended reviewed financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2016 for the Quarter and Half Year ended 300% September-2018. The till format of the quarter and Half Year ended 300.9 September-2018. The till format of the quarter and Half Year ended 300.9 September-2018. The till format of the quarter and Half Year ended 300.9 September-2018. The stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website.

2. The above results were approved by the Audit Committee of Directors, reviewed by the Statutory Auditors of the Company and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 13.11.2018

Place: Meerut Dated: 13.11.2018

(Premjit S. Kashyap) Chairman Din: 01664811

For & On Behalf of Board of Directors of Dhanvantari Jeevan Rekha Ltd.

ALLAHABAD BANK

ALB/ FBD-NIT/ 2018-19/ 01

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्णाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तिय की है-नीलामी विक्री सूचना एउंददूरारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणवारको तथा गारन्यों को सूचित क्या जाता है कि नीच वर्षित अचल सम्पतियों प्रीकृत रुडीटर के पास गिरवी। चान्ड है जिसका यहां नीचे नामित ऋणवारकों तथा गारन्यों से प्रतिभूत क्रेडीटर को देय ऋण राशि की वसूची के लिये 5.12.2018 (बिक्री की तिथि) को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी वहां है'' तथा ''जैसा है जो भी है'' आधार पर विक्री की जायेगी। प्रतिभूत क्रेडीटर के पक्ष में गिरवी रखी गई सम्मितयों, संबंधित ऋणदारकों/ गारन्यों का नाम बकाया राशि, आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण इस प्रकार

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभृत क्रेडीटर की वेबसाईट www.allahabadank.in देखें।

सम्पत्ति	ऋणधारक	गारन्टरों / मार्टगेजरों का	अचल संपत्ति∕ यों का विवरण	प्रतिभृत ऋण राशि	आरक्षित मृल्व	धरोहर राशि भुगतान
कोड	(कों) का नाम	नाम		-		
1.	मैं. प्रशांत एण्टरप्राईजेज (प्रॉप. श्री सुभाष बाधवा)	(गारन्टर- मार्टगैजर) पत्नी श्री सुभाष वाधवा	श्रीमती गध्य स्थाय के नाम में पराला जादिन. 22, क्रावन चलाला (सिम कर के अधिकर के नीताला चटा देश, दारशादी व्यदिलादा (इरिस्लाण) पर निर्मित कॉमिर्सनात कॉम्प्लैक्स का दूसरत तल प्रेस्त, माय 2730 वर्ग फोट श्रीमती मध्य खथवां के नाम में चेराला जादिन. 27, क्रावन चलाला (शिल छत के अधिकार के) नीताम चाटा रेड, एनआईटी रुसीदलाद (इरियाला) पर निर्मित कॉमिर्सनले कॉम्प्लैक्स का दूसरा तल पोर्शन, माय 780 वर्ग फोट	(रुवये चार करोड़ चौरासी लाख अड़तीस हजार छ: सौ छप्पन एवं पैसे चौंसठ मात्रा) तथा 1.1.2013 से चैंक के बकाये की सम्पूर्ण वकूली तक खर्चे एवं उस पर अन्य चार्जेंज	(रुपये वासठ लाख मात्र)	रु. 620000/- (रुपए छ: लाख बीस हजार मात्र) रु. 180000/- (रुपए एक लाख अस्सी हजार मात्र)
	एण्ट र प्राईं जो जा	<ol> <li>श्रीमती मधु वाथवा (गारन्टर-मार्टगैजर) पत्नी श्री सुभाष वाधवा</li> </ol>	श्रीमती मधु वाधवा के नाम में क्राउन प्लाजा, प्लॉट नं. 27, नीलम बाटा रोड, एनआईटी, फरीदाबाद में क्षत्र के अधिकार के बिना दूसरे तल पर स्थित कॉमसिंगल साईट/निर्मित भवन हॉल माप 1950 वर्ग फीट (सुपर एरिया 2500 वर्ग फीट) का सभी भाग तथा हिस्सा।	रु. 20768548.60 (रुपये दो करोड़ सात लाख अड़सट हजार पांच सौ अड़तालिस एवं पैसे साठ मात्र) 31.5.2013 को तथा बैंक के बकाये की वसूली तक आगे का व्याज + खने आदि		रु. 4,40,000.00 (रुपये चार लाख चालीस हजार मात्र)
3.	ट्रेडर्स (प्रॉप. श्रीमती मध	श्रीमती मधु वाधवा (ऋणधारक-मार्टगैजर),     श्री सुभाष वाधवा (गारन्टर)     श्री त्रिलोक ग्रोवर (गारन्टर)     श्री रजनीकान्त श्रीवास्तव (गारन्टर)	श्री त्रिलोक ग्रोवर के नाम में प्लॉट नं. 27 एवं 28, क्राउन प्लाजा, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद (सुपर एरिया 1281 वर्ग फीट में बेस्मेन्ट की	रु. 7,35,57,451 (रुपये सात करोड़ पैतीस लाख सतावन हजार चार सी इक्यावन मात्र) 31.5.2013 को तथा बैंक के बकाये की वसुली तक आगे का व्याज । खर्चे आदि	(रुपये इक्कीस लाख चालिस हजार मात्र) रु. 24,00,000.00 (रुपये चौबीस लाख	रु. 214000.00 (रुपये दो लाख चौदह हजार मात्र) रु. 2,40,000/- (रुपये दो लाख
4.		श्रीमती सविता सूद श्री प्रमोद सूद	कार्मियंक सम्मित्त का सभी पान क्या हिस्सा। इस्टोग सुन्द के नाम के प्रश्न स्थित्युक्त क्योत्वाया के पीतर मौज अवरीन्त, तहसील एवं विल्ला क्योतवाद में सम्मित नाथ 1 कराल 13 स्थान क्यान का स्थान का स्थान है स्थान है 2,227/2, 242/27 (0-4) पूर्व विदेशन है 2,4 इस्तित क्रिला है 3,37/4, पश्चित है 3,37/4, पश्चित क्रिला है 3,37/4, प्राप्त क्रिला	(रुपये छः करोड़ सैंतीस लाख बीस हजार छः मात्र) तथा चैंक के बकाये की वस्ली तक आगे का ब्याज + खर्चे आदि।	(रुपये दो करोड़	चालिस हजार मात्र)  र. 25,00000.00 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)

5.12.2018 को 12 बजे दोपहर से 1.00 बजे अप. तक असीमित विस्तार के साथ। बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000.00 है। ह- नालाभा का ताल एय राजन | प्रचित्त से संबंधित प्रवरणों के लिए कृपणा निजलिवित से संपर्क करें: एनआईटी फरीदाबाद लाखा, प्राप्कृत अधिकारी, सुकी राज असीड़ा, फोन नं. 0129-2428478, ई-मेल: br.del\_faridabad@allahabadbank.in (मोवाईल: 9958120185)

क्सितृत विवरण तथा नियमों एवं ऋतों को डाउनलोड करने के लिए कृपया देखें: i) https://www.allahabadbank.in, ii) https://eprocure.gov.in, iii) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेचसाइट का पत

सम्पत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए निर्धारित तिथि हैं 29 नवम्बर, 2018 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे सायं तक।

ा कर के आध्यकत को इन्टर- में मोली, योजी प्रक्रिया के निलंदन तथा तिस्सन, योली, योली राशि प्रमा करने की तिथि, सम्य तथा पद्धित में विस्तार करने का अध्यक्तर है तथा योलीदाता/ ऋणधारक अध्यव किसी अ व्यक्ति के लिए योली प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी न्यावालय डीआरटी द्वारा पाति किली आदीय के कारण मैंक हिसी भी देखा का यहन नहीं करेगा। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निरमावली, 2002 के नियम 6 एवं/ अथवा नियम 8 (6) के साथ पंटित सर्रमेशी अधिनियम, 2002 की यारा 13 (4) के अंतर्गत यह ऋगधारक/ गास्टर के लिए 15 दिनों की सुचना भी है।

. **टिप्पणी**: उपरोक्त निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर यह नीलामी अगले कार्य दिवस को की जाएगी।

इलाहाबाद बँक